

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 138]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 मई 2024—वैशाख 19, शक 19460

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 9 मई 2024

फा. क्र.—1300—2024—इक्कीस—ब (दो).— राज्य शासन, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी इंदौर द्वारा प्रेषित अतिरिक्त/संशोधित प्रस्ताव संलग्न सूची के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को लोक सभा निर्वाचन 2024 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण हजारे, अतिरिक्त सचिव.

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17, अरेश हिल्स, भोपाल — 462 011

फा.क्र.9 (क)—चार—2024—सेक्टर म.—8506

भोपाल, दिनांक 9 मई 2024

लोक सभा निर्वाचन 2024—सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त किए जाने एवं उन्हें विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

स. क्र.	जिले का नाम	विवरण	पत्र क्र. एवं दिनांक	अधिकारियों की संख्या
1.	इंदौर	अतिरिक्त प्रस्ताव	3392 / भा.निर्वा. / कर्म.व्य.—स्था. / सेक्टर म., दिनांक 08.05.2024	25
कुल				25

राजेश कुमार कौल, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

क्र.-3392-भा.निर्वा.-कर्म.व्य-स्था.-सेक्टर म.

इंदौर, दिनांक 8 मई 2024

लोक सभा निर्वाचन-2024 जिला इंदौर

पूर्व में प्रेषित जानकारी के अतिरिक्त संशोधित/अतिरिक्त/रिजर्व नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

जिले का नाम :- इंदौर

स.क्र	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
1	शक्ति सिंह मोणा	विकास अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय डी.ए.बी. ब्रां, १५२ आर.ए.टी मार्ग छावनी इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
2	अन्नपूर्णा सिसोदिया	प्रभारी सहायक यंत्री	म.प्र. पुलिस आवास एवं अधीसरचना विकास निगम इन्दौर, जी -१३ प्रथम तल एम आई जी कालोनी क्रिश्चन एमिनेंट स्कूल के पीछे , इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
3	संजय सोनी	विकास अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा शाखा क्रमांक ०१ इन्दौर- इंदौर, १९ महात्मा गांधी मार्ग इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
4	शिवसिंह राजपूत	उपसंचालक कृषि	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास- इंदौर, dupty directer agriculture indor	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
5	सुश्री हिमाली सोनपाटकी	खादय सुरक्षा अधिकारी	खादय सुरक्षा प्रशासन इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
6	श्री शोभाराम	सहायक संचालक कृषि	अनुविभागीय कृषि अधिकारी इंदौर, सेटेलाइट भवन कलेक्टोरेट इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
7	मदनलाल गजभिये	उप पंजीयक	उपायुक्त सहायक सहकारिता (1180), 123 DEVI AHILYA MARGH JAIL ROAD, INDORE	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
8	श्री दीपेश रावल	सहायक यंत्री	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तेजाजी नगर इन्दौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
9	अरुण कुमार राजगुरु	उप प्रबंधक	दि न्यू इंडिया एश्योरेस कम्पनी ऑटो टाई अप कलेम हब ऑपरेटिंग कार्यालय, ऑटो टाई उप हब, स्नेह नगर में रोड, सपना संगीता रोड, इंदौर.	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
10	नरेंद्र वर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा ,संभाग इंदौर, २०२,सेटेलाइट भवन,कलेक्टोरेट परिसर, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
11	स्त्री अलमेलू पी.वी.	खादय सुरक्षा अधिकारी	खादय सुरक्षा प्रशासन इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
12	श्री आर.एस. परमार	वाणिज्यिक कर अधिकारी	कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर ऑडिट विंग - 2, 305 श्रीवधेन कॉम्प्लेक्स तृतीय मंजिल आरएनटी मार्ग इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
13	हरीश जाधव	विकास अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा मह	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
14	श्री रत्नेश पोरवाल	जिला प्रबंधक	मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाइज कार्पो. लि. इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
15	प्रमोद कुमार दौक्षित	विकास अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा मह	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए

लोक सभा निर्वाचन-2024 जिला इन्दौर
पूर्व में प्रेषित जानकारी के अतिरिक्त संशोधित/अतिरिक्त/रिजर्व नियुक्त FST दल हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

जिले का नाम :- इंदौर

स.क	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
1	अनिल मंडलोई	शा. उदयान विस्तार अधि.	उपसंचालक उदयान इंदौर, विकासखंड देपालपुर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
2	सुनिल कुमार मिश्रा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग इंदौर, 202, सैटेलाईट भवन, प्रशासनिक संकुल परिसर, जिला-इन्दौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए

लोक सभा निर्वाचन-2024 जिला इन्दौर
पूर्व में प्रेषित जानकारी के अतिरिक्त संशोधित/अतिरिक्त/रिजर्व नियुक्त SST दल हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

जिले का नाम :- इंदौर

स.क	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
1	श्री एम.ए. खान	प्रभारी उप नियंत्रक	नापतोल विभाग इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री शरदचंद्र शर्मा	नाप. निरीक्षक	नापतोल विभाग इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
3	राहुल पाटीदार	शा. उदयान विस्तार अधि.	उपसंचालक उदयान इंदौर, विकासखंड सांवेर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
4	स्वरूप मालवीय	उपयंत्री	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या इंदौर,	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
5	मौसम कुशवाह	ब्लॉक समन्वयक	जनपद पंचायत, सांवेर,	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
6	अशोक समीर	उपयंत्री	इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर, ७ रेस कोर्स रोड इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
7	पवन रावत	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सम्भाग क्र 1,	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए

लोक सभा निर्वाचन-2024 जिला इन्दौर
पूर्व में प्रेषित जानकारी के अतिरिक्त संशोधित/अतिरिक्त/रिजर्व नियुक्त VST दल हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम :- इंदौर

स.क	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
1	अल्केश यादव	औषधि निरीक्षक	खादय एवं औषधि प्रशासन इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए

हस्ता./-

अपर कलेक्टर एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी.